



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 707 ]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 6, 2002/श्रावण 15, 1924

No. 707]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 6, 2002/SRAVANA 15, 1924

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 अगस्त, 2002

का.आ. 831(अ).—आयुध अधिनियम, 1959 (1959 का 54) की धारा 41 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्वारा, भारत सरकार, गृह मंत्रालय की दिनांक 12 सितम्बर, 1985 की अधिसूचना सं. का.आ. 667(अ) में निम्नलिखित आशोधन करती है, अर्थात् :—

I. स्पष्टीकरण के उप पैरा (घ) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा :

“(घ) “ख्यातिप्राप्त निशानेबाज” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी खुली पुरुष प्रतिस्पर्धा अथवा खुली महिला प्रतिस्पर्धा अथवा खुली नागरिक प्रतिस्पर्धा में राष्ट्रीय चैंपियनशिप प्रदान करने वाले प्रथम पच्चीस निशानेबाजों में से एक हो;

परन्तु यह कि प्ररगत खेल में भागीदारों की संख्या 30 से कम है, वहां उस व्यक्ति को उस खेल में भागीदारों की कुल संख्या के आधे वाला या उससे बेहतर स्थान प्राप्त करना चाहिए;

परन्तु यह और कि वे खेल अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी संघ के चालू नियमों के अनुसार में होना चाहिए”;

II. दिनांक 12-9-85 की अधिसूचना सं. का.आ. 667(अ) के साथ संलग्न अनुसूची के क्रमांक 3 (अंतर्राष्ट्रीय टारगेट निशानेबाज) में उल्लिखित शर्तों (कालम 4) में उप-पैरा (i) और (iii) में “डबल ट्रैप शूटिंग” शब्द जोड़े जाएंगे और उसे निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :

(i) “छूट प्राप्त शॉट गन्स की कुल सं. छह से अधिक नहीं होगी, अर्थात् टारगेट शूटिंग के लिए दो गन; स्कीट शूटिंग के लिए दो गन और डबल ट्रैप शूटिंग के लिए दो गन;

(ii) केवल स्कीट शूटिंग या ट्रैप शूटिंग या डबल ट्रैप शूटिंग में दक्ष व्यक्ति उस विशेष प्रतिस्पर्धा के लिए केवल दो बंदूकों के लिए ही अधिकृत होगा जिसमें उसने दक्षता प्राप्त की हो।”

उप-पैरा (ii) और (iv) ज्यों के त्यों रहेंगे।

III. दिनांक 12-9-85 की अधिसूचना सं. का.आ. 667(अ) के साथ संलग्न अनुसूची के क्रमांक 4 (ख्यातिप्राप्त निशानेबाज) में उल्लिखित शर्तों (कालम 4) में उप-पैरा (i) और (iii) में “डबल ट्रैप शूटिंग” शब्द जोड़े जाएंगे और उसे निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :—

(i) “छूट प्राप्त शॉट गन्स की कुल संख्या छह से अधिक नहीं होगी, अर्थात् टारगेट शूटिंग के लिए दो गन; स्कीट के लिए दो गन और डबल ट्रैप शूटिंग के लिए दो गन।

(ii) केवल स्कीट शूटिंग या डबल ट्रैप शूटिंग या डबल ट्रैप शूटिंग में दक्ष व्यक्ति उस विशेष प्रतिस्पर्धा के लिए केवल दो बंदूकों के लिए ही अधिकृत होगा जिसमें उसने दक्षता प्राप्त की हो।”

उप-पैरा (ii) और (iv) ज्यों के त्यों रहेंगे।

[ सं. वी. 11015/6/99-आर्म्स ]

हरमिन्दर राज सिंह, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

## NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd August, 2002

**S.O. 831(E).**—In exercise of the powers conferred by Section 41 of the Arms Act, 1959 (54 of 1959), the Central Government hereby makes the following amendments in the Notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs No. S.O. 667(E) dated 12th September, 1985, namely:—

- I. Sub para (d) of the explanation may be substituted as follows :

“(d) “renowned shooter” means a person who is amongst the top ranking twenty five shooters in a National Championship in an open Men's Event or open Ladies Event or open Civilian's Ever

Provided that where the number of participants in the event in question is less than 30, the person should have achieved a position of half the total number of participants in the event, or better;

Provided further that the event should be according to current rules of International Shooting Union;”

- II. Conditions (col. 4) against Sl. No. 3 (International Target Shooter) of Schedule attached with the notification No. S.O. 667(E) dated 12-9-85, the words “Double Trap Shooting” may be added in sub para (i) and (iii) and read as :—

- (i) “The total number of short guns exempted shall not exceed six, that is two guns for

Target Shooting; two guns for Skeet Shooting and two guns for Double Trap Shooting;

- (ii) A person competent only in Skeet Shooting or only in Trap Shooting or in Double Trap Shooting shall be entitled to two guns only for the particular event in which he has achieved the competence.”

Sub-para (ii) and (iv) will remain the same

- III. Conditions (Col. 4) against Sl. No. 4 (Renowned Shooter) of Schedule attached with Notification No. S.O. 667(E) dated 12-9-85, the words “Double Trap Shooting” may be added in sub para (i) and (iii) and read as :—

- (i) “The total number of short guns exempted shall not exceed six, that is to say two guns for Trap Shooting; two guns for Skeet Shooting and two guns for Double Trap Shooting;

- (ii) A person competent only in Skeet Shooting or only in Trap Shooting or in Double Trap Shooting shall be entitled to two guns only for the particular event in which he has achieved the competence.”

Sub-para (ii) and (iv) will remain the same.

[No. V-11015/6/99-Arms]

HARMINDER RAJ SINGH, Jt. Secy.